



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 कार्तिक 1940 (श10)

(सं० पटना 988) पटना, मंगलवार, 20 नवम्बर 2018

सं० 01/स्था० (विविध) 24/2018— 5727/न०वि०आ०वि०,  
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

6 नवम्बर 2018

**विषय:—** नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत गठित एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में नगर निकायों के स्तर पर तकनीकी सहयोग हेतु अभियन्ताओं के पदों को चिन्हित करने के फलस्वरूप 23,13,41,016/—(तेईस करोड़ तेरह लाख एकतालीस हजार सोलह) रुपये अनुमानित वार्षिक व्यय पर विभिन्न कोटि के अभियन्ताओं के 316 (तीन सौ सोलह) अतिरिक्त पदों का सृजन।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य जल पर्षद का पूर्ण रूप से बिहार शहरी आधारभूत संरचना एवं विकास निगम लिमिटेड, पटना में विलयन एवं बिहार शहरी विकास अभिकरण तथा जिला शहरी विकास अभिकरणों के स्तर पर कार्यरत नगर विकास एवं आवास विभाग के अभियंत्रण कोषांग (एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव एवं उड़नदस्ता प्रकोष्ठ को छोड़कर) के अभियन्ताओं के पदों को समेकित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2690 दिनांक 16.05.2018 द्वारा विभिन्न स्तरों के अभियन्ताओं के कुल 577 पदों को सम्मिलित कर एकीकृत अभियंत्रण संगठन का गठन किया गया है।

2. एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में नगर निकायों के स्तर पर कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/निर्माण कार्यो हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करने, जलापूर्ति एवं स्ट्रीट लाईट इत्यादि हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करने, योजनाओं के गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं उसपर नियंत्रण तथा अनुश्रवण हेतु नगर निकायों के स्तर पर एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत अभियन्ताओं के पदों को चिन्हित किये जाने की आवश्यकता के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2690 दिनांक 16.05.2018 द्वारा गठित एकीकृत अभियंत्रण संगठन में विभिन्न स्तर के अभियन्ताओं के कुल 577 स्वीकृत पदों के अतिरिक्त नगर निकायों के स्तर पर निम्नवत् मापदण्डों के अनुसार अभियन्ताओं के पदों को चिन्हित किया गया है :-

- (i) उन नगर निकायों में, जिसकी आबादी लगभग 25 हजार है, उसके लिए कनीय अभियन्ता (सिविल) का 01 पद रखा जाय।
- (ii) उन नगर निकायों में, जिसकी आबादी 25 हजार से लगभग 40 हजार तक है, वहाँ कनीय अभियन्ता (सिविल) का 02 पद रखा जाय।
- (iii) उन नगर निकायों में, जिसकी आबादी 40 हजार से 1 लाख तक है, वहाँ सहायक अभियन्ता (सिविल) का 01 पद एवं कनीय अभियन्ता (सिविल) का 02 का पद रखा जाय।
- (iv) उन नगर निकायों में, जिसकी आबादी 1 लाख से 2 लाख तक है, उन निकायों में सहायक

अभियंता (सिविल) के 02 पद एवं प्रत्येक सहायक अभियंता (सिविल) के अधीन 02 कनीय अभियंता (सिविल) का पद रखा जाय।

- (v) नगर निगमों में प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर सहायक अभियंता (सिविल) का 01 पद एवं उनके अधीन 2 कनीय अभियंता (सिविल) का पद रखा जाय।
- (vi) पटना नगर निगम का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण वाटर सप्लाई के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु कार्यपालक अभियंता (सिविल) का 01 पद एवं उनके अधीन सहायक अभियंता (सिविल) का 03 पद तथा सहायक अभियंता (यांत्रिक) का 02 पद रखा जाय साथ ही प्रत्येक सहायक अभियंता (सिविल) के अधीन 2-2 कनीय अभियंता तथा प्रत्येक सहायक अभियंता (यांत्रिक) के अधीन 1-1 कनीय अभियंता (यांत्रिक) एवं कनीय अभियंता (विद्युत) का पद पद रखा जाय।
- (vii) अन्य नगर निकायों में वाटर सप्लाई एवं अन्य प्रकार के यांत्रिकी कार्य के लिए प्रत्येक कार्यपालक अभियंता (सिविल) के अधीन 1 सहायक अभियंता (यांत्रिक) तथा सहायक अभियंता (यांत्रिक) के अधीन 1 कनीय अभियंता (यांत्रिक) एवं 1 कनीय अभियंता (विद्युत) का पद पद रखा जाय।

3. उपर्युक्त मापदण्ड के अनुसार नगर निकायों की जनसंख्या के आधार पर पदों की आवश्यकता के आलोक में निम्न विवरणी में अंकित पदों को चिन्हित किया गया है:-

1	नगर पंचायत क्षेत्र जिसकी आबादी 25 हजार तक है (कुल संख्या- 27)	1 X 27 = 27 (कनीय अभियंता, सिविल)
2	नगर पंचायत क्षेत्र जिसकी आबादी 25-40 हजार तक है (कुल संख्या- 43)	2 X 43 = 86 (कनीय अभियंता, सिविल)
3	नगर पंचायत क्षेत्र जिसकी आबादी 40 हजार से अधिक है (कुल संख्या- 12)	1 X 12 = 12 (सहायक अभियंता, सिविल) 2 X 12 = 24 (कनीय अभियंता सिविल)
4	नगर परिषद क्षेत्र जिसकी आबादी 40 हजार से 1 लाख तक है (कुल संख्या 37)	1 X 37 = 37 (सहायक अभियंता, सिविल) 2 X 37 = 74 (कनीय अभियंता सिविल)
5	नगर परिषद क्षेत्र जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक है (कुल संख्या 14)	2 X 12 = 24 (सहायक अभियंता, सिविल) 4 X 12 = 48 (कनीय अभियंता, सिविल)
6	नगर निगम में प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर पटना नगर निगम को छोड़कर शेष 11 नगर निगम	36 (सहायक अभियंता, सिविल) 2 X 36 = 72 (कनीय अभियंता, सिविल)
7	पटना नगर निगम में प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर (1684222 जनसंख्या)	17 (सहायक अभियंता, सिविल) 2 X 17 = 34 (कनीय अभियंता, सिविल)
8	पटना नगर निगम क्षेत्र में वाटर सप्लाई हेतु	1 X 1 = 01 (कार्यपालक अभियंता, सिविल) 03 (सहायक अभियंता, सिविल) 2 X 3 = 06 (कनीय अभियंता, सिविल) 02 (सहायक अभियंता, यांत्रिक) 1 X 2 = 02 (कनीय अभियंता, यांत्रिक) 1 X 2 = 02 (कनीय अभियंता, विद्युत)

9	अन्य 11 नगर निगमों में वाटर सप्लाई हेतु (अन्य नगर निगम क्षेत्र में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता (सिविल) वाटर सप्लाई का कार्य करेंगे)	$1 \times 11 = 11$ (सहायक अभियंता, सिविल) $2 \times 11 = 22$ (कनीय अभियंता, सिविल)
10	अन्य नगर निकायों में वाटर सप्लाई एवं यांत्रिकी कार्य के लिए प्रत्येक कार्यपालक अभियंता (सिविल) के अधीन	$42$ (सहायक अभियंता, यांत्रिक) $1 \times 42 = 42$ (कनीय अभियंता, यांत्रिक) $1 \times 42 = 42$ (कनीय अभियंता, विद्युत)

4. पटना नगर निगम में वर्तमान में छः अंचल सृजित है। प्रत्येक अंचल क्षेत्र में 01-01 कार्यपालक अभियंता (सिविल) का पद होंगे :-

1	पटना नगर निगम में	$1 \times 6 = 06$ (कार्यपालक अभियंता, सिविल)
---	-------------------	---

5. वाटर सप्लाई एस0टी0पी0, स्ट्रीट लाईटिंग आदि योजनाओं में पम्प, मोटर एवं अन्य विद्युत्तीकरण कार्य के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु कार्यपालक अभियंता (विद्युत) का 01-01 पद प्रत्येक प्रशासनिक प्रमण्डल के स्तर पर एवं पटना नगर निगम के लिए 1 कार्यपालक अभियंता (विद्युत) का पद अलग से होंगे :-

1	पटना नगर निगम क्षेत्र में	$1 \times 1 = 01$ (कार्यपालक अभियंता, विद्युत) अतिरिक्त
2	9 प्रमण्डलों के लिए प्रत्येक प्रमण्डल में	$1 \times 9 = 09$ (कार्यपालक अभियंता, विद्युत)

6. योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अधीक्षण अभियंता (प्रोक्योरमेंट एवं गुण-नियंत्रण) के अधीन प्रशासनिक प्रमण्डल स्तर पर 01-01 कार्यपालक अभियंता (सिविल) एवं उनके अधीन 01-01 सहायक अभियंता (सिविल) एवं 04-04 कनीय अभियंता (सिविल) का पद होंगे :-

1	09 प्रशासनिक प्रमण्डलों के लिए	$1 \times 9 = 09$ (कार्यपालक अभियंता, सिविल) $1 \times 9 = 09$ (सहायक अभियंता, सिविल) $4 \times 9 = 36$ (कनीय अभियंता, सिविल)
---	--------------------------------	--

7. योजनाओं के अनुश्रवण हेतु मुख्यालय के स्तर पर अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में अनुश्रवण कोषांग गठित होंगे, जो सीधे विभागीय सचिव/प्रधान सचिव के नियंत्रण में रहेंगे:-

1	मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण कोषांग हेतु	$1 \times 1 = 01$ (अधीक्षण अभियंता, सिविल) $1 \times 2 = 02$ (कार्यपालक अभियंता, सिविल) $1 \times 4 = 04$ (सहायक अभियंता, सिविल)
---	---------------------------------------	---

8. एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में मुख्यालय (बुडको) के स्तर पर यांत्रिकी एवं विद्युतीय कार्यों के प्राक्कलन एवं अन्य तकनीकी कार्यों हेतु 01 अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) तथा उनके अधीन 01 कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) एवं 02 सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद होंगे:-

1	एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में मुख्यालय (बुडको) के स्तर पर	$1 \times 1 = 01$ (अधीक्षण अभियंता, यांत्रिक) $1 \times 1 = 01$ (कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक) $1 \times 2 = 02$ (सहायक अभियंता, यांत्रिक)
---	---	--

9. उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित आवश्यकता के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत गठित एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत पूर्व से सृजित 577 पदों के अतिरिक्त निम्न विवरणी के कॉलम 4 में अंकित सहायक अभियंता (विद्युत) के 10 पदों को प्रत्यार्पित कर विभिन्न कोटि के अभियन्ताओं के 316 अतिरिक्त पद सृजित किया जाता है :-

क्र०	पदनाम	एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत पद	वर्तमान में प्रस्तावित अतिरिक्त पद	कुल पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
<b>प्रस्तावित एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग के मुख्यालय स्तर के पद</b>					
1	अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव	01	0	01	
2	अधीक्षण अभियंता (असैनिक)	02	0	02	अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के तकनीकी प्रकोष्ठ के अन्तर्गत तकनीकी सचिव के रूप में 01 एवं उड़नदस्ता प्रकोष्ठ के लिए 01 अर्थात् कुल 02 पद
3	अधीक्षण अभियंता (असैनिक)	0	01	01	मुख्यालय स्तर पर योजनाओं के अनुश्रवण हेतु
4	कार्यपालक अभियंता (असैनिक)	03	0	03	अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के तकनीकी प्रकोष्ठ के अन्तर्गत 01 एवं उड़नदस्ता प्रकोष्ठ के लिए 02 अर्थात् कुल 03 पद
5	कार्यपालक अभियंता (असैनिक)	0	02	02	मुख्यालय स्तर पर योजनाओं के अनुश्रवण हेतु अधीक्षण अभियंता के अधीन
6	सहायक अभियंता (असैनिक)	08	0	08	अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के तकनीकी प्रकोष्ठ के अन्तर्गत 04 एवं उड़नदस्ता प्रकोष्ठ के लिए 04 अर्थात् कुल 08 पद
7	सहायक अभियंता (असैनिक)	0	04	04	मुख्यालय स्तर पर योजनाओं के अनुश्रवण हेतु कार्यपालक अभियंता के अधीन
<b>प्रस्तावित एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के पद</b>					
1	मुख्य अभियंता	05	0	05	
2	अधीक्षण अभियंता (असैनिक)	16	0	16	

3	अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक)	0	1	1	यांत्रिकी एवं विद्युतीय कार्यों के प्राक्कलन एवं अन्य तकनीकी कार्य हेतु बुडको मुख्यालय स्तर पर
4	कार्यपालक अभियंता (असैनिक)	54	11	65	वाटर सप्लाई के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु पटना नगर निगम क्षेत्र में 01 कार्यपालक अभियंता का पद
5	कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक)	03	1	04	अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) के तकनीकी सलाहकार
6	कार्यपालक अभियंता (विद्युत)	05	05	10	प्रत्येक प्रमंडल में 01 विद्युत कार्यपालक अभियंता का पद
7	सहायक अभियंता (असैनिक)	112	69	181	नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों जहाँ आबादी 40 हजार से अधिक है वहाँ 01 सहायक अभियंता का पद साथ ही सभी नगर निगम में जलापूर्ति योजना हेतु 1-1 सहायक अभियंता का पद
8	सहायक अभियंता (यांत्रिक)	45	16	61	विद्युत कार्यपालक अभियंता के अधीन 01-01 सहायक अभियंता तथा पटना नगर निगम में जलापूर्ति हेतु 02 सहायक अभियंता का पद एवं अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) के अधीन 02 पद
9	सहायक अभियंता (विद्युत)	12	(-) 10	02	पूर्व में सृजित 10 पद को प्रत्यापण किया जाना है।
10	कनीय अभियंता (असैनिक)	240	189	429	प्रत्येक सहायक अभियंता के अधीन 02-02 कनीय अभियंता एवं वैसे नगर निकाय आबादी 25-40 हजार के बीच है वहाँ नगर निकाय में 02-02 कनीय अभियंता तथा जलापूर्ति योजनाओं के संचालन के लिए 28 कनीय अभियंता का पद
11	कनीय अभियंता (यांत्रिक)	41	5	46	नगर निकायों के क्षेत्र में सहायक अभियंता के अधीन 01-01 कनीय अभियंता का पद
12	कनीय अभियंता (विद्युत)	20	22	42	नगर निकायों के क्षेत्र में सहायक अभियंता के अधीन 01-01 कनीय अभियंता का पद
13	सहायक टार्डन प्लानर	10	0	10	
	<b>कुल योग</b>	<b>577</b>	<b>326-10=316</b>	<b>839</b>	

10. उक्त सृजित पदों के फलस्वरूप संलग्न विवरणी अनुसार 23,13,41,016/—(तेईस करोड़ तेरह लाख एकतालीस हजार सोलह) रुपये का वार्षिक व्यय अनुमानित होगा।

अनुलग्नक—यथोक्त व्यय विवरणी।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
चैतन्य प्रसाद,  
सरकार के प्रधान सचिव।

एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत अभियन्ताओं के अतिरिक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय की विवरणी										
क्र०सं०	पदनाम	वेतन स्तर	पदों की कुल संख्या	प्रारम्भिक मूल वेतन	मकान किराया भत्ता	महंगाई भत्ता 07 प्रतिशत	चिकित्सा भत्ता	कुल योग	कुल योग गुणा पदों की संख्या	वार्षिक व्यय
1	अधीक्षण अभियन्ता	वेतन स्तर—13	2	118500	18960	8295	1000	146755	293510	3522120
2	कार्यपालक अभियन्ता	वेतन स्तर—11	19	67700	10832	4739	1000	84271	1601149	19213788
3	सहायक अभियन्ता	वेतन स्तर—9	79	53100	8496	3717	1000	66313	5238727	62864724
4	कनीय अभियन्ता	वेतन स्तर—07	216	44900	7184	3143	1000	56227	12145032	145740384
कुल योग			316	284200	45472	19894	4000	353566	19278418	231341016

(तेईस करोड़ तेरह लाख एकतालीस हजार सोलह)

चैतन्य प्रसाद,  
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 988-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>